

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 598]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2021 — अग्रहायण 10, शक 1943

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-213/2019/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायतों के क्षेत्र को नगर पंचायत चंद्रखुरी, जिला-रायपुर की सीमा में सम्मिलित करता है:-

अनुसूची -1

सम्मिलित किए जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायत के क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	ग्राम पंचायतों के क्षेत्र का विवरण	जनसंख्या वर्ष 2011
1	वार्ड क्रमांक 1 से 13 तक ग्राम पंचायत मुनगेसर, जनपद पंचायत आरंग	1991
2	वार्ड क्रमांक 11 एवं 12 ग्राम पंचायत मुनगी, जनपद पंचायत आरंग	260

अनुसूची -2

नगर पंचायत चंद्रखुरी की संशोधित सीमा निम्नानुसार होंगी:-

नगर पंचायत चंद्रखुरी की वर्तमान सीमा, ग्राम पंचायत मुनगेसर का वार्ड क्रमांक 1 से 13 तथा ग्राम पंचायत मुनगी के वार्ड क्रमांक 11 एवं 12 नगर पंचायत चंद्रखुरी की सीमाएं होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 1 दिसम्बर 2021

क्रमांक एफ 1-213/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-213/2019/18 दिनांक 1-12-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 1st December 2021

NOTIFICATION

No. F 1-213/2019/18.— In exercise of the powers conferred by section 5(A) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby include the following areas of Gram Panchayats in the boundary of Nagar Panchayat Chandkhuri in District-Raipur as per Schedule given below :-

SCHEDULE-1

The particulars of areas of Gram panchayats is as under :-

S.No.	Particulars of areas of Gram Panchayat	population year 2011
1	Ward No. 1 to 13 of Gram Panchayat Mungesar, Janpad Panchayat Arang	1991
2	Ward No. 11 and 12 of Gram Panchayat Mungi, Janpad Panchayat Arang	260

SCHEDULE-2

The Revised boundary of Nagar Panchayat Chandkhuri is as under :-

The existing boundaries of Nagar Panchayat Chandkhuri, Ward No. 1 to 13 of Gram Panchayat Mungesar and Ward No. 11 and 12 of Gram Panchayat Mungi shall be the limits of Nagar Panchayat Chandkhuri.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.